



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2018/अग्रहायण 22, 1940

No. 70]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2018/AGRAHAYANA 22, 1940

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2018

आ.अ. 77(अ):— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 क क की उपधारा (1) और (2) के अनुसरण में और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 13 अगस्त, 2004 की अपनी अधिसूचना सं. 508/अरूणाचल/2014 के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग अरूणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा:

1. निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में अरूणाचल प्रदेश राज्य में उल्लिखित प्रत्येक जिले के लिए इस सारणी के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट अधिकारी को उस जिले के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदनामित करता है, और
2. उक्त सारणी के स्तंभ 3 में वह क्षेत्र विनिर्दिष्ट करता है, जिसके संदर्भ में ऐसे प्रत्येक अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे।

सारणी

जिले का नाम	जिला निर्वाचन अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम)
1	2	3
तवंग जिला	उपायुक्त, तवंग	1- लुम्ला (अ.ज.जा.) 2- तवंग (अ.ज.जा.) 3- मुक्तो (अ.ज.जा.)
कामेंग पश्चिम जिला	उपायुक्त, बोमडिला	4- दिरंग (अ.ज.जा.) 5- कालकटंग (अ.ज.जा.) 6- थिरीजिनो – बुरागांव (अ.ज.जा.)

जिले का नाम	जिला निर्वाचन अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम)
1	2	3
		7- ब्रोमडिला (अ.ज.जा.)
कामेंग पूर्व जिला	उपायुक्त, सेप्पा	8- बामेंग (अ.ज.जा.) 9- चयंगताजो (अ.ज.जा.) 10- सेप्पा पूर्व (अ.ज.जा.) 11- सेप्पा पश्चिम (अ.ज.जा.) 12- पक्के – कसांग (अ.ज.जा.)
पापुम परे जिला	उपायुक्त, पापुम परे	13- इटानगर (अ.ज.जा.) 14- डोइमुख (अ.ज.जा.) 15- सगली (अ.ज.जा.)
सुबनसिरी लोअर जिला	उपायुक्त, जीरो	16- याचुली (अ.ज.जा.) 17- जीरो – हापोली (अ.ज.जा.)
कुरुंग कुमेय जिला	उपायुक्त, कुरुंग, कुमेय	18- पालिन (अ.ज.जा.) 19- नयापिन (अ.ज.जा.) 20- टाली (अ.ज.जा.) 21- कोलोरिआंग (अ.ज.जा.)
अपर सुबनसिरी जिला	उपायुक्त, दपोरिजो	22- नाचो (अ.ज.जा.) 23- टालिहा (अ.ज.जा.) 24- दपोरिजो (अ.ज.जा.) 25- रागा (अ.ज.जा.) 26- दामपोरिजो (अ.ज.जा.)
पश्चिम सिआंग जिला	उपायुक्त, आलोंग	27- लिरोमोबा (अ.ज.जा.) 28- लीकावाली (अ.ज.जा.) 29- बसर (अ.ज.जा.) 30- आलोंग पूर्व (अ.ज.जा.) 31- आलोंग पश्चिम (अ.ज.जा.)
	अपर उपायुक्त, मेचुका	33- मेचुका (अ.ज.जा.)
पूर्वी सिआंग जिला	उपायुक्त, पासीघाट	36-नॉन – कोयू (अ.ज.जा.) 37-पासीघाट पश्चिम (अ.ज.जा.) 38-पासीघाट पूर्व (अ.ज.जा.) 39-मेबो (अ.ज.जा.)
अपर सिआंग जिला	उपायुक्त, यिंगकिओंग	34-ट्यूटिंग यिंगकिओंग (अ.ज.जा.) 40- मारीयंग गेकु (अ.ज.जा.)
दीबंग वैली जिला	उपायुक्त, अनिनि	41-अनिनि (अ.ज.जा.)
लोअर दीबंग वैली जिला	उपायुक्त, रोइंग	42- डाम्बुक (अ.ज.जा.) 43- रोइंग (अ.ज.जा.)
लोहित जिला	उपायुक्त, तेजू	44- तेजू (अ.ज.जा.) 46- चोखाम (अ.ज.जा.) 47- नमसाई (अ.ज.जा.) 48- लेकंग (अ.ज.जा.)

जिले का नाम	जिला निर्वाचन अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम)
1	2	3
अन्जाव जिला	उपायुक्त, हवाई	45-हयूलाआंग (अ.ज.जा.)
चंगलंग जिला	उपायुक्त, चंगलंग	49- बोरडूमसा-डियूम (अ.ज.जा.) 50- मिआओ (अ.ज.जा.) 51- नामपोंग (अ.ज.जा.) 52-चंगलंग दक्षिण (अ.ज.जा.) 53-चंगलंग उत्तर (अ.ज.जा.)
तिराय जिला	उपायुक्त, खोन्सा	54- नामसांग (अ.ज.जा.) 55-खोन्सा पूर्व (अ.ज.जा.) 56- खोन्सा पूर्व (अ.ज.जा.) 57- बोरडुरिया बोगापानी (अ.ज.जा.)
लोंगडिंग	उपायुक्त, लोंगडिंग	58- कनुवाडी (अ.ज.जा.) 59- लोंगडिंग-पुमाओ (अ.ज.जा.) 60- पोंगचाओ-वक्का (अ.ज.जा.)
सिआंग जिला	उपायुक्त, सिआंग जिला, पांगिन	32- रूमगोंग (अ.ज.जा.) 33- पांगिन (अ.ज.जा.)

[सं. 508/अरुणाचल/2018]

आदेश से,

स्टैंडहोप युहलुंग, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2018

O.N. 77(E).— In pursuance of sub-sections (1) and (2) of section 13 AA of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) and in supersession of its notification No.508/ARUN/2014, dated 13th August, 2014, as amended from time to time, the Election Commission of India, in consultation with the State Government of Arunachal Pradesh, hereby:

1. Designates for each of the districts in the State of Arunachal Pradesh mentioned in column 1 of the Table below, the Officer specified in column 2 thereof as the District Election Officer(s) for that District, and
2. Specifies the area mentioned in column 3 of the said Table in respect of which each such Officer shall exercise jurisdiction.

TABLE

Name of District	Designation of DEO	Area of Jurisdiction (Number and Name of Assembly Constituency)
1	2	3
Tawang District	Deputy Commissioner, Tawang	1-Lumla (ST) 2-Tawang (ST) 3-Mukto (ST)
West Kameng District	Deputy Commissioner, Bomdila	4-Dirang (ST) 5-Kalaktang (ST) 6-Thrizino-Buragaon (ST) 7-Bomdila (ST)
East Kameng District	Deputy Commissioner, Seppa	8-Bameng (ST) 9-Chayangtajo (ST)

Name of District	Designation of DEO	Area of Jurisdiction (Number and Name of Assembly Constituency)
1	2	3
		10-Seppa East (ST) 11-Seppa West (ST) 12-Pakke-Kessang (ST)
Papum Pare District	Deputy Commissioner , Papum Pare	13-Itanagar (ST) 14-Doimukh (ST) 15-Sagalee (ST)
Lower Subansiri District	Deputy Commissioner , Ziro	16-Yachuli (ST) 17-Ziro-Hapoli (ST)
Kurung Kumey District	Deputy Commissioner, Kurung Kumey	18-Palin (ST) 19-Nyapin (ST) 20-Tali (ST) 21-Koloriang (ST)
Upper Subansiri District	Deputy Commissioner, Daporijo	22-Nacho (ST) 23-Taliha (ST) 24-Daporijo (ST) 25-Raga (ST) 26-Dumporijo (ST)
West Siang District	Deputy Commissioner, Along	27-Liromoba (ST) 28-Likabali (ST) 29-Basar (ST) 30-Along West (ST) 31-Along East (ST)
	Additional Deputy commissioner, Mechuka	33-Mechukha (ST)
East Siang District	Deputy Commissioner, Pasighat	36-Nari-Koyu (ST) 37-Pasighat West (ST) 38-Pasighat East (ST) 39-Mebo (ST)
Upper Siang District	Deputy Commissioner, Yingkiong	34-Tuting-Yingkiong (ST) 40-Mariyang-Geku (ST)
Dibang valley District	Deputy Commissioner, Anini	41-Anini (ST)
Lower Dibang Valley District	Deputy Commissioner, Roing	42-Dambuk (ST) 43-Roing (ST)
Lohit District	Deputy Commissioner, Tezu	44-Tezu (ST) 46-Chowkham (ST) 47-Namsai (ST) 48-Lekang (ST)
Anjaw District	Deputy Commissioner, Hawaii	45-Hayuliang (ST)
Chanaglang District	Deputy Commissioner, Changlang	49-Bordumsa Diyum 50-Miao (ST) 51-Nampong (ST)

Name of District	Designation of DEO	Area of Jurisdiction (Number and Name of Assembly Constituency)
1	2	3
		52-Changlang South (ST) 53-Changlang North (ST)
Tirap District	Deputy Commissioner, Khonsa	54-Namsang (ST) 55-Khonsa East (ST) 56-Khonsa West (ST) 57-Borduria Bogapani (ST)
Longding District	Deputy Commissioner, Longding	58-Kanubari (ST) 59-Longding-Pumao (ST) 60-Pongchau-Wakka (ST)
Siang District	Deputy Commissioner, Siang District, Pangin	32-Rumgong (ST) 35-Pangin (ST)

[No. 508/ARUN/2018]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Principal, Secy.